



दौर्बल्य



विस्तृत जानकारी हेतु सम्पर्क करें:

महानिदेशक

केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्
जवाहर लाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान भवन
61-65 संस्थानिक क्षेत्र, 'डी' ब्लाक के सामने, जनकपुरी,
नई दिल्ली-110058

फोन: +91-11-28525520 / 28524457, फैक्स: +91-11-28520748
ई-मेल: dg-ccras@nic.in

वेबसाइट: www.ccras.nic.in / www.indianmedicine.nic.in

अश्वगन्धा



© सी.सी.आर.ए.एस. 2014

यह दस्तावेज केवल प्रचार, प्रसार एवं वितरण हेतु तैयार किया गया है, व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं। इस सामग्री का पुनरुपयोग सी.सी.आर.ए.एस. से अनुमति लेने के बाद ही किया जा सकता है।

केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्

आयुष मंत्रालय


(आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी)
भारत सरकार

दौर्बल्य

दौर्बल्य क्या है – शारीरिक ऊतकों विशेषकर मांसपेशियों के ऊतकों में होने वाली क्षति को दौर्बल्य कहते हैं। जिसका प्रमुख लक्षण है, बिना परिश्रम के या हल्के परिश्रम से भी थकान महसूस होना।

दौर्बल्य के लक्षण क्या हैं ?

- कमज़ोरी
- आलस्य
- चक्कर आना
- अधिक पसीना
- वजन का कम होना



शतावरी

आयुर्वेद में दौर्बल्य की चिकित्सा


- बृंहण चिकित्सा
- रसायन चिकित्सा
- बृंहणीय बस्ति
- महानारायण तैल, चन्दन बला लाक्षादि तैल से अभ्यंग (मालिश)



खर्जूर

कठिपय महत्वपूर्ण योग

- च्यवनप्राश
- द्राक्षासव
- अश्वगंधारिष्ट
- ब्रह्म रसायन
- शतावरी कल्प



विदारी

दौर्बल्य में उपयोगी औषधीय पौधे

- अश्वगंधा (Withania somnifera)
- बादाम (Prunus amygdalus)

- आमलकी (Phyllanthus emblica)
- विदारी (Peuraria tuberosa)
- शतावरी (Asparagus racemosus)
- खर्जूर (Phoenix sylvestris)
- काली मूसली (Curculigo orchioides)



बादाम

पथ्य (क्या करें) ✓

- ✓ गेहूं, पुराने चावल, मुदग (हरी मूंग), हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दूध, घी
- ✓ बादाम का प्रयोग, खर्जूर, अंजीर, काजू एवं अन्य मौसमी फल
- ✓ बकरी के दूध का प्रयोग लाभदायक है
- ✓ नियमित व्यायाम, तैलीय अभ्यंग (मालिश), प्राणायाम, योग, अच्छे सामाजिक एवं व्यक्तिगत कार्य



आमलकी

अपथ्य (क्या न करें) ✗

- ✗ विरुद्ध (विपरीत) भोजन।
- ✗ अधिक मसालेदार, नमकीन, तीक्ष्ण भोजन।
- ✗ भंडार (स्टोरेज) किये हुये भोज्य पदार्थ।
- ✗ प्राकृतिक वेगों को रोकना एवं नियमित निद्रा नहीं लेने की आदत।
- ✗ धूम्रपान, शराब, अधिक मात्रा में कॉफी/चाय का सेवन।

महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संदर्भ एवं पाठ्य सामग्री

- “इफेक्ट ऑफ अश्वगंधा (विदानिया सोमनीफेरा) ऑन द प्रोसेस ऑफ एजिंग इन ह्यूमन वॉलेन्टिर्स”, कुप्पुराजन एवं अन्य, जनरल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद एण्ड सिद्ध
- चरक संहिता “आयुर्वेद दीपिका” टीका सहित, चौथा संस्करण, 1981— यादव जी त्रिकमजी आचार्य, मुशीराम, मनोहर लाल पब्लिशर्स प्रा० लि०, नई दिल्ली